

August 18, 2023

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Symbol: LALPATHLAB

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 539524

Sub: Newspaper advertisement(s)

Ref: Intimation regarding dispatch of Notice of 29th Annual General Meeting

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement intimating about the dispatch of Notice of 29<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report for FY 2022-23 to the Shareholders of the Company, published in Financial Express and Jansatta on August 18, 2023.

We request you to please take the same on record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For Dr. Lal PathLabs Limited

Vinay Gujral
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS



### Dr. Lal PathLabs Limited

CIN: L74899DL1995PLC065388 Registered Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi -110085 Corporate Office: 12" Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram -122001, Haryana Tel.: +91 - 124 - 3016500; Fax: +91 - 124 - 4234468 Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Dr Lat Path Labs

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, September 12, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of 29" AGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with

Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Circular dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), electronic copies of the Notice of the 29" AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been sent on August 17, 2023 to all the Members whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s).

If you have not registered your email address with the Company/ Depository Participant(s) you may please follow below instructions for registering/ updating your email addresses:

Register/ Update the details in prescribed Form ISR-1 and

Physical Holding, if any	other relevant Form(s) with the Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Company, Link Intime India Private Limited at delhi@linkintime.co.in  Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") available on the Company's website at https://uat-cdn.drlallab.com/2023-08/FAQs.pdf	
Demat Holding	Contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details as per the process	

advised by your DP.

Members may note that the Notice of 29" AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 is available on the Company's website at www.lalpathlabs.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of 29th AGM will also be available on the website of E-voting Agency i.e. Central Depository Service (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

The Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 29" AGM by remote e-voting and/or e-voting during AGM. The Company has engaged the services of CDSL for providing its Members the facility of "remote e-voting and/or e-voting during AGM". The detailed procedure of remote e-voting and/or e-voting during AGM has been provided in the notice of 29" AGM.

The remote e-Voting period commences on Friday, September 8, 2023 at 9:00 A.M. and ends on Monday, September 11, 2023 at 5:00 P.M. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the equity capital of the Company as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 5, 2023. A person who is not a Member as of the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of Notice of the 29th AGM and holds shares as of the cut-off date may refer Notice of 29" AGM for obtaining the Login ID and Password for casting the Vote. However, if you are already registered with CDSL for e-voting then you may use your existing user ID and password for casting your vote.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries or issues regarding e-voting you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available under the help section of CDSL's website i.e. www.evotingindia.com or call on 1800 225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafattal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013, at the designated email ID at helpdesk.evoting@cdslindia.com

The Members may please note that the Board of Directors of the Company in their meeting on Thursday, May 11, 2023 recommended a Final Dividend of Rs. 6/- per equity share for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of Members at the 29" AGM. The Final Dividend, if approved, will be paid to Members whose name appears in the Register of Members as on Friday, August 11, 2023 (Record Date).

For receiving dividend directly in bank accounts, Members are requested to update their complete bank details (i) with their Depositories (where shares are held in dematerialised mode) and (ii) with the RTA (where shares are held in physical mode) at delhi@linkintime.co.in by providing the relevant details/ documents as prescribed in For Dr. Lal PathLabs Limited

Place: Gurugram Vinay Gujral Company Secretary & Compliance Officer Date: August 17, 2023



NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED MANAGED CIN: U72200HR2001PLC099478 TRAINING Registered Office: Plot No. 85, Sector 32, SERVICES

Institutional Area, Gurugram-122001, Haryana, India Website: www.niitmts.com; E-mail: investors@niitmts.com; Tel: +91 124 429 3000

Pursuant to the provisions of section 201(2) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), a Notice is hereby given that NIIT Learning Systems Limited ("the Company"), intends to make an application to the Central Government under section 196, 197, 198, 203 and any other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, read with Schedule V to the Act, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), for obtaining its approval for the appointment of Mr. Sapnesh Kumar Lalla (a non-resident Indian as per provision of Schedule V of the Act) as Whole-time Director of the Company designated as Executive Director and Chief Executive Officer for a period of five (5) years with effect from May 24, 2023.

The aforesaid appointment was approved by the Board of Directors at their meeting held on May 24, 2023, and by the members of the Company through postal ballot or August 02, 2023.

By order of the Board of Directors For NIIT Learning Systems Limited

Place: Gurugram Date: August 17, 2023

Deepak Bansal Company Secretary Membership No.: A11579

# SYRMA

### SYRMA SGS TECHNOLOGY LIMITED CIN: L30007MH2004PLC148165

Regd. Office: Unit No. 601, 6th Floor, Floral Deck Plaza, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093 | Tel. No: +91 22 4036 3000 | Fax No: +91 22 2829 1176 Email: investor.relations@syrmasgs.com | Website: www.syrmasgs.com

### NOTICE OF NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION PERTAINING TO E-VOTING

NOTICE is hereby given that the Nineteenth (19") Annual General Meeting ('AGM') of the Members of SYRMA SGS TECHNOLOGY LIMITED ('the Company') will be held through VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM') ON FRIDAY, SEPTEMBER 08, 2023 AT 11:00 A.M. IST in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure) Requirements) Regulations, 2015, to transact such business as detailed in the Notice of 19" AGM of the Company

In terms of MCA and SEBI Circular(s), the Company has electronically sent the Notice of the 19" AGM along with the Explanatory Statement and Annual Report for the financial year 2022-23 on Wednesday, August 16, 2023, to all the Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agents. The Notice of the 19" AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 are also available on the Company's website at http://syrmasgs.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The Company has fixed Friday, September 01, 2023, as the Record Date to determine the Members entitled to receive the proposed Dividend of Rs. 1.5/- per share on face value of Rs. 10/-each for the year ended March 31, 2023.

The Members holding shares as on cut-off date as mentioned in the below table may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 19" AGM of the Company through an e-voting system provided to the members by Link Intime India Private Limited in accordance with applicable provisions under Companies Act, 2013 and regulations under SEBI.

Members are requested to note the below details pertaining to the e-Voting:

Cut-off date for e-Voting	Friday, September 01, 2023
Date and time of commencement of remote e-voting Date and time of end of remote e-voting	Tuesday, September 05, 2023, at 9:00 A.M IST Thursday, September 07, 2023, at 5:00 P.M IST
the list of beneficial owners furnished be and Central Depository Services (India i.e., Friday, September 01, 2023, shall be Notice. Once the vote on a resolution is	5. TC AND 10. T TV 2 (40 TV 2) 10. O

but shall not be entitled to cast their vote again. The Members attending the 19th AGM who have not cast their votes through remote e-voting will be able to vote through electronic voting facility provided by Link Intime Private Limited during the 19th AGM. Members who have not registered their email address or those who have acquired shares

after the dispatch of Notice of 19th AGM and the Annual Report and who continue holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, September 01, 2023, can obtain/generate the User Id and password as per the instructions provided in the Notice of the 19" AGM. A person already registered for e-voting can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

The process for registration of email id for obtaining Notice of 19" AGM and Annual Report and user id/ password for e-voting and updating the bank account details for receipt of dividend are explained in detail in the Notice of the 19" AGM

In case shareholders/ members have any queries regarding login/ e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

For Syrma SGS Technology Limited

Rahul Sinnarkar

Company Secretary & Compliance Officer Place: Gurgaon Date : August 18, 2023 Membership No: A39709

# PFC CONSULTING LTD.

### PFC CONSULTING LIMITED (A wholly owned subsidiary of PFC Ltd.)

NOTICE INVITING SUBMISSION FOR EXPRESSION OF INTEREST

PFC Consulting Limited (PFCCL), a wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited (A Government of India Undertaking), is appointed by Ministry of Power for conducting sixth round of auction under B (ii) of SHAKTI Policy issued by Ministry of Coal on 22.05.2017 and amendment on 25.03.2019.

Bidders may download the Expression of Interest from PFCCL website www.pfcclindia.com Bidders should regularly visit website to keep themselves updated regarding

clarifications / amendments / time extensions, etc., if any. Note: PFC Consulting Limited reserves the right to cancel or modify the process

without assigning any reason and without any liability. This is not an offer.

PFC CONSULTING LIMITED

(A Wholly owned Subsidiary of Power Finance Corporation Ltd. A Govt. of India Undertaking) Registered Office: First Floor "Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi 110001

Corporate Office: 9th Floor (A Wing) Statesman House, Connaught Place, New Delhi - 110001

# SKIPPER

CIN: L40104WB1981PLC033408

Registered Office: 3A, Loudon Street, Kolkata - 700 017 Phone: (033) 2289 2327/5731, Fax: (033) 2289 5733 Email: investor.relations@skipperlimited.com, Website: www.skipperlimited.com NOTICE

. NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of Skipper

Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 19th September, 2023 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and circulars issued by Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/ P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 (hereinafter collectively referred to as "Circulars"). The members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). b. In compliance with the above circulars, the Notice convening the 42nd AGM ("Notice") and the Annual Report for the financial year 2022-23 will only be sent through e-mail to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e M/s. Maheshwari Datamatics Private Limited ("MDPL")/Depository Participants. The Notice will also be available on the Company's website at www.skipperlimited.com and on the website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The instructions for joining the AGM through VC/ OAVM and the manner of taking part in e-voting process will be provided along with the Notice and Annual Report.

c. Members holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered with the Company may cast their votes through e-voting system, after registering the same with the RTA by following the instructions mentioned on their website at https://mdpl.in/.

 Members holding shares in physical mode and who have not yet updated their mandate for receiving dividend directly into their bank accounts through any RBI approved electronic mode of payment may register the same with the RTA by following the instructions mentioned on their website at https://mdpl.in/ However, in case the Company is unable to transfer the dividend entitlements directly

through the RBI approved electronic mode(s), the Company shall dispatch the Dividend Warrants/Demand Draft to such members e. Members holding share in demat mode should update their email addresses and

bank mandate directly with their respective Depository Participants. f. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing

Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 13th September, 2023 to Tuesday, 19th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to ascertain the names of members who would be entitled to receive dividend, if approved at the AGM. This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the

For Skipper Limited

Place: Kolkata Anu Singh

Date: 18th August, 2023 (Company Secretary & Compliance Officer) SALE NOTICE

HINDUSTHAN SMALL TOOLS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 19" December 2022)
Registered Office: 30 Chowringhee Road, Kolkata-700016, West Bengal
CIN: U22219WB1955PTC022547

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 21st September 2023 from 12:00 noon till 04:00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 1st September 2023 (Upto 11:59 PM IST)

Last Date of EMD Submission: 18th September 2023 (Upto 11: 59 PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Hindusthan Small Tools Private Limited (In Liquidation) "Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by Ion'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench vide order dated 19.12.2022.

Details of assets

No

Reserve Price Earnest Money Incremental

Deposit (Rs)

value (Rs)

HU	1		1,,,,,,	m o p o o o o o o o o o o o o o o o o o	and fried
1.	Lot-1	Part of Ground Floor having super built up area of 11,084 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2)	7,38,24,400/-	73,00,000/-	5,00,000/-
2.	Lot-2	Entire First Floor having super built up area of 13,565 square feet more or less of Block A & B (Refer Important Notes: 2)	8,92,47,100/-	89,00,000/-	5,00,000/-
3.	Lot-3	All that First Floor measuring 2386 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	1,97,92,500/-	19,50,000/-	1,00,000/-
4.	Lot-4	Entire Second Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	4,09,45,700/-	40,50,000/-	5,00,000/-
5.	Lot-5	Entire Third Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	4,09,45,700/-	40,50,000/-	5,00,000/-
6.	Lot-6	Entire Fourth Floor measuring 5123 square feet more or less built up area in Block D (Refer Important Notes: 2)	4,04,46,400/-	40,00,000/-	5,00,000/-
7.	Lot-7	Flat at Premises no-2102, 3rd Floor, RS Khatiyan No- 119 &121, RS Dag No-92, KMC, Nayabad, Ward No- 109, South 24 Pargana admeasuring 625 square feet more or less.	16,90,000/-	1,69,000/-	1,00,000/-

### Important Notes:

The sale shall be on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). The assets as mentioned in Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5 and Lot-6 in the table above are

situated at 1458 Garia Main Road, Ward No. 29, District-South 24 Parganas, Kolkata, West As per records available, the property at Lot-3, Lot-4, Lot-5 and Lot-6 is given on lease to HHP Hospital Private Limited (Formerly known as Hindusthan Health Point Pvt. Ltd.) on a long-term

basis vide Lease Deed dated 02.03.2010 for a period of 55 years. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or

disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are

available on website of the e-auction service provider at https://ncitauction.auctiontiger.net. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves.

> KULDEEP VERMA Liquidator of Hindusthan Small Tools Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/cirp.hstpl@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 11.12.2023

Place: Kolkata Date: 18.08.2023

Based on the above and in the light of the Escrow arrangement, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfill their obligations through verifiable means in relation to the Offer in accordance with the SEBI SAST Regulations. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, the value of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration

calculated at such revised Offer Price or Offer Size and any additional amounts required will be funded via cash in the Escrow Account by the

Acquirer prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the SEBI SAST Regulations.

STATUTORY AND OTHER APPROVALS As of the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge of the Acquirer and PACs, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of the Offer, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s).

9.2 In case of delay in receipt of any Statutory Approval(s), pursuant to Regulation 18(11) of the SEBI SAST Regulations, SEBI may, if satisfied, that

delay in receipt of requisite statutory approval(s) was not attributable to any wilful default, failure or neglect on the part of the Acquirer and/or the

PACs to diligently pursue such approvals, may grant an extension of time for the purpose of the completion of this Offer, subject to Acquirer and PACs agreeing to pay interest for the delayed period, provided where the statutory approval(s) extend to some but not all Shareholders, the Acquirer and the PACs have the option to make payment to such Shareholders in respect of whom no statutory approval(s) are required in order to complete this Open Offer. Further, in case the delay occurs on account of wilful default by the Acquirer in obtaining any statutory approval(s) in time, the amount lying in the Escrow Account will be liable to be forfeited and dealt with pursuant to Regulation 17(10)(e) of the SEBI SAST Regulations. The acquisition of the Equity Shares tendered by NRI and OCB are subject to approval / exemption, if applicable, from RBI. NRI and OCB holders

of the Equity Shares in the Target Company, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer (including from RBI) and submit such approvals, along with the other requisite documents required in terms of the Letter of Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, QFIs and FIIs) had required any approvals (including RBI) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit the previous approvals that they would have obtained for holding such Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer, along with other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in

In terms of Regulation 23(1) of the SEBI SAST Regulations, in the event that the approvals which become applicable prior to completion of the Offer are not received, the Acquirer and the PACs shall have the right to withdraw the Offer. In the event of such a withdrawal of the Offer, the Acquirer and the PACs, through the Manager shall, within 2 Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI SAST Regulations.

Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirer and PACs shall complete all procedures relating to the Open Offer, including payment of consideration within 10 Working Days from the closure of the tendering period to those shareholders whose share certificates or other documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirer along with PACs.

9.6 By agreeing to participate in this Open Offer (i) the holders of the Equity Shares who are persons resident in India and the (ii) the holders of the Equity Shares who are persons resident outside India (including NRIs, OCBs and FPIs) give the Acquirer the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all actions to file applications and regulatory reportings, if required, including FC-TRS form, if necessary and undertake to provide assistance to the Acquirer for such regulatory filings, if required by the Acquirer.

TENTATIVE SCHEDILLE OF ACTIVITIES

Nature of Activity	Schedule		
	Date	Day	
Date of the Public Announcement	August 09, 2023	Wednesday	
Corrigendum to the Public Announcement	August 17, 2023	Thursday	
Date of publication of the Detailed Public Statement	August 18, 2023	Friday	
Date for filing of Draft Letter of Offer with SEBI	August 25, 2023	Friday	
Last date of a competing offer	September 08, 2023	Friday	
Latest date by which SEBI's observations will be received	September 15, 2023	Friday	
dentified Date*	September 20, 2023	Wednesday	
Last date by which the Letter of Offer will be dispatched to the Eligible Shareholders of the Target Company as on the identified date	September 27, 2023	Wednesday	
Last Date for revising the Offer Price / Offer Size	October 04, 2023	Wednesday	
Last date by which the recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company will be given and published	October 04, 2023	Wednesday	
Date of publication of Public Announcement for Opening the Offer	October 05, 2023	Thursday	
Date of Commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)	October 06, 2023	Friday	
Date of Closing of the Tendering Period (Offer Closing Date)	October 19, 2023	Thursday	
ast date for communicating Rejection / Acceptance and Payment of consideration for accepted equity shares / credit of unaccepted shares	November 03, 2023	Friday	
Last date for issue of post-offer advertisement	November 10, 2023	Friday	

\* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. It is clarified that all the Eligible Shareholders of the Target Company are eligible to participate in this Offer any time during the tendering period of the Offer.

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates. 2. All dates are subject to change and depend on obtaining the requisite statutory and regulatory approvals, as may be applicable. Changes to the

demat form as well as physical form, can tender shared under the Offer.

the Detailed Public Statement has appeared. 11. PROCEDURE FOR TENDERING OF EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER 11.1 The Letter of Offer will be sent to all shareholders of the Target Companyholding Equity Shares whose names appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date. All such Shareholders of the Company to whom offer has been sent, both who are holding shares in

proposed timetable, if any, will be notified to the Eligible Shareholders of the Target Company by way of corrigendum in all the newspaper in which

11.2 Accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any member entitled to this Open Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any member entitled to this Open Offer shall not invalidate the Open Offer in any manner whatsoever.

11.3 The Offer will be implemented by the Acquirer through the stock exchange mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI SAST Regulations and the SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015

dated April 13, 2015 issued by SEBI read with the SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI Circular No. CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, as amended from time to time, and notices / guidelines issued by Stock Exchanges and the Clearing Corporation in relation to the mechanism / process for the acquisition of shares through the stock exchange pursuant to the tender offers under takeovers, buy back and delisting, as amended and updated from time to time ("Acquisition Window Circulars").

11.4 BSE shall be the Stock Exchange for the purpose of tendering the Equity shares in the Open Offer ("Designated Stock Exchange"). 11.5 The Acquirer have appointed Ajcon Global Services Limited ("Buying Broker") for the Open Offer through whom the purchases and settlement of

the Offer Shares tendered in the Open Offer shall be made. The Contact Details of the Buying Broker are mentioned below:

Ajcon Global Services Limited SEBI Regn. No.: INZ000173933

408, Express Zone, A Wing Cello-Sonal Realty, Near Oberoi Mall Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India

Tel: +91 22 6716 0400 E-mail: investorgrievance@ajcon.net

Website: www.ajcononline.com Contact Person: Nilesh Parchure

11.6 During the Tendering Period, the tender of the Equity Shares by the Equity Shareholders in this Offer will be placed through their respective Selling Brokers during normal trading hours of the secondary market.

11.7 Eligible Shareholder(s) have been sent the Letter of Offer and the Tender Form through Speed Post / Registered Post. Further, the Eligible Shareholders whose e-mail ids are registered with the Company have also been sent the Letter of Offer and the Tender Form through electronic means. In case of non-receipt of Letter of Offer, Eligible Shareholder(s) can access the Letter of Offer on the website of SEBI, the Registrar to the Offer, the Stock Exchange and the Manager to the Offer at www.sebi.gov.in, www.bigshareonline.com, www.bseindia.com, and www.sundaecapital.com, respectively. Further, an Eligible Shareholder who wishes obtain a copy of the Letter of Offer, they may send a request to the Registrar or Manager at their respective email id mentioned in this Public Announcement stating the name, address, number of Equity Shares, client ID number, DP name / ID, beneficiary account number, Folio No. and upon receipt of such request, a copy of the Letter of Offer shall be provided to such Eligible Shareholder. An Eligible Shareholder may also participate in the Offer by downloading the Tender Form from the website of the Registrar to the Offer. An Eligible Shareholder holding share in physical form may also participate in the Offer by providing his / her / its application in writing on a plain paper signed by all Shareholders (in case of joint holding) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, Equity Share certificate number, number of Equity Shares tendered in the Offer and the distinctive numbers thereof, enclosing the original Equity Share certificate(s), copy of Eligible Shareholder's PAN card(s) and executed share transfer form in favour of the Acquirer. Eligible Shareholders must ensure that the Tender Form, along with the TRS and requisite documents, reach the Registrar to the Offer not later than 2 (two) days from the Bid Closing Date i.e., October 22, 2023, (by 5:00 p.m.). If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Target Company or are not in the same order (although

attested), such Tender Forms are liable to be rejected under this Offer. 11.8 Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

11.9 The detailed procedure for tendering the equity shares in the Open Offer by the Eligible Shareholders holding shares in both, demat and physical form, will be available in the Letter of Offer that will be sent to the Eligible Shareholders of the Target Company as on the Identified Date, which will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

12. OTHER INFORMATION

Date: August 17, 2023

12.1 The Acquirer & PACs accept full responsibility for the information contained in the Public Announcement, Corrigendum to the Public Announcementand the Detailed Public Statement and also for the obligations of the Acquirer & PACs laid down under the SEBI SAST

12.2 The Acquirer & PACs shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligations under the SEBI SAST Regulations in respect of this

12.3 The information pertaining to the Target Company contained in the Public Announcement, Corrigendum to the Public Announcement or the Detailed Public Statement or any other advertisement / publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or provided by the Target Company, as the case may be, or publicly available sources which has not been independently verified by the Acquirer & PACs or the Manager. The Acquirer & PACs do not accept any responsibility with respect to any misstatement by the Target Company in relation to such information.

12.4 In this Detailed Public Statement, any discrepancy in any table between the total and sums of the figures listed is due to rounding off. 12.5 This Public Announcement, Corrigendum to the Public Announcement and Detailed Public Statementwould also be available on the website of

SEBI (www.sebi.gov.in). REGISTRAR TO THE OFFER MANAGER TO THE OFFER

New Delhi



404, 04th Floor, Vaibhav Chambers, Opp. Income Tax Office, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel No.: +91 96 6785 9191

E-mail ID: kdml.openoffer@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: greviences.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com SEBI Regn. No.: INM000012494

Validity Period: Permanent Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma Issued by the Manager to the Offer

On behalf of Acquirer& PACs Sd/-Vijaykumar Khemani Sd/-Sd/-**ONYX Partners** Represented by Vijaykumar Khemani, Partner Place: Surat

**Bigshare Services Private Limited** SEBI Regn. No.: INR000001385

Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India Tel. / Fax: +91 22 6263 8200

> E-mail ID: openoffer@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Sagar Pathare

**BSAS Infotech Limited** Represented by Vijaykumar Khemani, Director Vijaykumar Mangturam Khemani HUF Represented by Vijaykumar Khemani, Karta

financialexp.epapr.in

Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI

विजय सिंह

पुलिस थाना सेक्टर 23 द्वारका, दिल्ली

फोन नं. : 01128051585, 8750871021

ई-मेल : sho.dwarkasec23@delhipolice.gov.in

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त माला पत्नी / पुत्री दिलीप निवासी मकान नंबर 75/21, गली नंबर 25, कौशिक एन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली-110084 और वीपीओ दिशाल्ला कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176052 ने एफआईआर संख्या 221/2016 अन्तर्गत घारा 354/354बी/451/323/ 34 आईपीसी एक्ट के तहत थाना बुराड़ी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लाँटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त माला मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त माला फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि एफआईआर संख्या 221/2016 अन्तर्गत घारा 354/354बी/451/323/34 आईपीसी एक्ट के तहत थाना ब्राड़ी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त माला से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 20.09.2023 को या उससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

सुश्री रीतिका जैन DP/8947/N/2023 एल.डी., महानगर दण्डाधिकारी, महिला कोर्ट-03 (Court Matter) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

गुमशुदा की तलाश

लिंग : पुरुष, उम्र : 24 वर्ष, कद : 5'8'', रंग : गोरा, चेहरा : लंबा, शरीर

पतला, पहचान चिह्न: नाक के बाईं ओर तिल, पहनावा: नीली शर्ट, निकर,

इस गुमशुदा आदमी के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित को सूचित करें:

हारा हाउासग फाइनस लामटड

पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057

फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com

वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

कब्जा-सुचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ परित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबिक अधोहस्ताक्षरी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकत अधिकारी होने के नाते. वित्तीय संपत्तियों

के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति ब्याज

(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर चुकाने के

उधारकर्ता उक्त राशि चकाने में विफल रहने पर, एतद्दवारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को

नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम

8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित, सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी

दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उल्लिखित तारीख से

प्रतिभति परिसंपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में. अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा

प्रतिभृति परिसम्पत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय सह वाणिज्यक प्लॉट नंबर एस-3, डीएलएफ अंक्र्

विहार, ग्राम लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102 पर स्थित फ्लैट नंबर एसएफ-2,

एम.आई.जी., छत के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल, (सामने एलएचएस) जिसमें एक ड्राइंग / डाइनिंग रूम, दो बेडरूम,

दो शौचालय, एक रसोई और एक बालकनी है, जिसका कवर एरिया 500 वर्ग फीट यानी 46.45 वर्ग मीटर है। सीमाबद्ध:

उत्तरः प्लॉट नंबर एस-4, पूर्वः फ्लैट नंबर एसएफ-3 (एमआईजी), दक्षिणः प्रवेश और फ्लैट नंबर एस.एफ.

प्रतिश्वति परिसम्पत्तियों/अचल संपत्तियो का विवरणः ग्राम-रजापुर, खुर्व, दिल्ली एस्टेट दिल्ली, मोहन गार्डन,

आर-III, ए-ब्लॉक नई दिल्ली-110059 के राजस्व राज्य में स्थित निर्मित संपत्ति की छत के अधिकार के

बिना निर्मित दूसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 91 बी का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, खसरा संख्या

20/4 में से। चौहद्दी : उत्तरः संपत्ति संख्या 92, पूर्वः सडक 10 फीट, दक्षिणः संपत्ति संख्या 91 बी,

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों/अचल संपत्तियो का विवरणः ग्राम-रजापूर, खुर्द, दिल्ली एस्टेट दिल्ली,मोहन गार्डन

आर—III. ए–ब्लॉक नई दिल्ली–110059 के राजस्व राज्य में स्थित निर्मित संपत्ति की छत के अधिकार के

साथ निर्मित तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 91 बी का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है. खसरा संख्या

20/4 में से। चौहद्दी : उत्तरः संपत्ति संख्या 92, पूर्वः सड़क 10 फीट, दक्षिणः संपत्ति संख्या 91 बी

हावर्ड होटल्स लिमिटेड

रजि.कार्यालयः 20, मौर्य कॉम्प्लेक्स, बी-28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, नई

दिल्ली-110092

कॉर्पोरेट कार्यालय : होटल हॉवर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा—282001(यपी), भारत

सीआईएनः स्74899क्स1989च्स्व038622; फोनः 0562—404—8600, फैक्सः 0562—404—8666

ईमेलः cs@howardhotelsltd.com, वेबसाइटः www.howardhotelsltd.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सचना

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 11 सितंबर, 2023 कं

सुबह 11:30 बजे (आईएसटी), एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए वीडियं

. ठॉन्फ्रोंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के ला

गवधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और सेबी द्वारा जा

लागू परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकर'

जीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के उन शेयरधारकों / सदस्यों व

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल कर दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी'}/ प्रासंगिव

रजीएम की सूचना भी शामिल है, को कंपनी की वेबसाइट www.howardhotelsltd.com] स्टॉक एक्सचेंजों, जह

कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध है और कंपनी

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.instavote.linkin

एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बही सोमवार 04/09/2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित लागू नियमों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक—2 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायिल

और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने

"ई–वोटिंग" के माध्यम से एजीएम से पहले ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए "इंस्टावोट" नियुक्त किया है। ई–वोटिंग का विवर

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालि

कों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ वोटिंग की सुविधा का लाग

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 08 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और रविवार, 10 सितंबर,

2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए इंस्टावोट द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम

सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को कंपनी की भूगतान की ग

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे औ

उनकी उपस्थिति कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में दोबारा वोव

डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने व

बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को शेयर रखता है

अलाँकि यदि शेयरधारक जो पहले से ही सीडीएसएल की ईजी/ ईजीएस्ट सुविधा या एनएसडीएल

आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो वे अपने मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के अलावा, सदस्यों को एजीएम में वोट करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। एजीएग

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वो

. जो शेयरधारक अपना ईमेल पता / मोबाइल नंबर पंजीकृत करना चाहते हैं उनसे निम्नलिखित निर्देशों का पालन

• इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए–अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए-कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिय

यदि शेयरधारकों / सदस्यों के पास ई-वोटिंग सुविधा / लॉगिन या एजीएम में भाग लेने से संबंधित कोई प्रश्न है

ो आप कंपनी के आरटीए : लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड–दिल्ली dehi@linkintime.co.inसे या

संपर्क कर सकते हैंया सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पृष्ट जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू-एस) और InstaVote ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें

बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए मेसर्स एटीजी एंड कंपनी, कंपर्न

सेक्रेटरीज (जिसे पहले पंजा आनंद एंड एसोसिएटस के नाम से जाना जाता था). दिल्ली के पार्टनर श्री मकल

कृते हावर्ड होटल्स लिमिटेड

सदस्यता संख्याः ए --69714

कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

हस्ता /-शशांक मिश्रा

प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 में विवरण पंजीकृत / अपडेट करें।

enotes@linkintime.co.in पर एक ईमेल लिखें या 022-4918-6000 पर संपर्क करें।

वह 34वीं एजीएम की सूचना में विवरणानुसार रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

वश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

प्तोमवार 11/09/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

इक्विटी शेयर पंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

परिपत्रों के अनुपालन में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं।

साथ ही, कंपनी की 2022—23 की वार्षिक रिपोर्ट की एक इलेक्टॉनिक प्रति, जिसमें अन्य बातों

मांग सूचना के

अनुसार राशि

18 / 10 / 2022,दिनांव

17 / 10 / 2022 तक

रु. 17.89.746 / −

दंडात्मक ब्याज, शूल्क, लागत आदि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

बाध्यताधारी (ओं)/

कानुनी उत्तराधिकारी(ओं)

/कानूनी प्रतिनिधि(ओं)

इमरान अली,

चंदा पत्नी इमरान अली

धर्मवीर, पुत्र मोहिंदर कुमार

समन, धर्मवीर की पत्नी

धर्मवीर, पुत्र मोहिंदर कुमार

समन,धर्मवीर की पत्नी

(8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपर्क पता:- भवन सं.27, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र,

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह

आदमी जिसका नाम विजय सिंह, पुत्र सोहन

सिंह, पता- प्लॉट नं. 80, केएच, नंबर 466, तीसरी

मंजिल, ग्राम भरथल, दिल्ली, जोकि 04.08.2023

को दोपहर लगभग 01:53 बजे से अपने घर से

लापता है। इस संबंध में डीडी संख्या 69ए,

दिनांक 05.08.2023, को पुलिस थाना सेक्टर

23 द्वारका, दिल्ली, में दर्ज की गई है। स्थानीय

पुलिस द्वारा इस लापता आदमी की तलाश करने

की कोशिश की गयी है लेकिन अभी तक कोई

इस लापता आदमी का विवरण इस प्रकार है :

दाहिने पैर पर प्लास्टर, बाएं पैर पर जुता।

सुराग नहीं मिल पाया

ई-मेल : cic@cbi.gov.in

फैक्स : 011-24368639

DP/9030/DW/2023

फोन : 011-24368638, 24368641

लिए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया।

ऋण खाता

संख्याः

HHFNSPHOU21000015755

& HHFNSPIPL21000015757

HHFDELHOU

20000007740

HHFDELHOU

20000007730

पश्चिमः सडक 20 फीट,

पश्चिमः सडक 20 फीट.

स्थानः- दिल्ली/एनसीआर

time.co.in पर उपलब्ध है।

नीचे दिया गया है:

रिमोट ई-वोटिंग

कर दिया जाएगा।

कर सकते हैं।

एजीएम में ई-वोटिंग

करने के पात्र होंगे।

सम्पर्क करने का विवरण:

स्थानः आगरा

दिनांकः 17 अगस्त, 2023

ई-मेल पते / मोबाइल नंबर का पंजीकरण

खाते में विवरण पंजीकत / अपडेट करें।

त्यागी को संवीक्षक नियुक्त किया है।

करने का अनुरोध किया जाता है:

उठाने का हकदार होगा।

दिनांक: 18-08-2023.

( एल.आई.जी.), पश्चिमः 12 मीटर चौड़ी सड़क,





रंग टी-शर्ट और नीली जींस पहने हुए हैं। जो

ई-मेल : cic@cbi.gov.in थानाअध्यक्ष फोन.: 011-24368638, 24368641 पुलिस थाना पालम गांव, नई दिल्ली फैक्स: 011-24368639 फोनः : 011-25365981, 25365979, DP/9118/SW/2023 7065036227

### वेल्यट कम्युनिकशन्स लिमिटेड CIN: L74899DL1993PLC056652 पंजीकृत कार्यालय : 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 फोन :+91-11-25928415, फैक्स : 91-11-25434300

वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 29-09-2023 को पूर्वा. 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरनल सर्कूलर्स ("एमसीए सर्कूलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर्स ("सेबी सर्कुलर्स") (एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स इसमें आगे सामृहिक रूप से "सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना, जो एजीएम के आयोजन हेतू प्रसारित की जा रही है, में वर्णित व्यवसायों के निष्पादन हेत्

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष 2022-23 हेत् वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर(आरटीए) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स (डीपी'ज) के पास पंजीकृत हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट https://www.valiantcom.com/corporate/misc/others.html पर, स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल)

उनके वोट डालने के अधिकार के प्रयोग हेतु एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा यह सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। एजीएम में ई-वोटिंग सविधा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी. जो बैठक में उपस्थित हैं तथा प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके हैं, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में ई–वोटिंग की विधि तथा विस्तृत प्रक्रिया और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के संबंध में अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

में रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग हेतू अनुदेशों का अनुसरण करें। जिन सदस्यों की ई-मेल आईडीज पहले से कम्पनी / डीपी'ज के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचना इत्यादि सहित सभी संदेश इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल पंजीकृत अथवा अद्यतन करवाने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करे। ई-मेल आईडी के सफल पंजीकरण पर ई-वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी और पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे 1. डीमैट धारण : जिन सदस्यों ने कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हए हैं तथा अपनी ई-मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं करवाई है, वे अपनी ई-मेल आईडी'ज का अस्थायी पंजीकरण लिंक https://www.valiantcom.com/corporate/investors/investor-details.html पर क्लिक करके ओर उसमें बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा करवा सकते हैं। किसी संदेह की रिथिति में सदस्य investors@valiantcom.com पर ई-मेल भेज सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि डीमैट खाते में ई–मेल आईडी'ज और बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अपने संबंधित डीपी'ज से सम्पर्क करने और डीपी'ज द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का अनुसरण करने का अनुरोध

अपनी ई-मेल आईडी'ज कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाई है, वे अपनी ई-मेल आईडी'ज का पंजीकरण प्रपत्र आईएसआर-1 तथा अन्य संबंधित प्रपत्र आरटीए नामतः लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के पास delhi@linkintime.co.in पर जमा करके करवा सकते हैं। सदस्यगण निर्धारित प्रपत्र लिंक https://www.valiantcom.com/corporate/investors/investordetails.html पर क्लिक करके ओर उसमें बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा डाउनलोड

जा रही है।

वास्ते वैल्यंट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

आईसीएसआई सदस्यता सं. ए16483

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 17-08-2023

(रचनात्मक / भौतिक)

16 / 08 / 2023

(भौतिक कब्जा)

22 / 05 / 2023. दिनांक 22 / 05 / 2023 | 17 / 08 / 2023

22 / 05 / 2023, दिनांक 22 / 05 / 2023 | 17 / 08 / 2023

हस्ता/-अधिकृत अधिकारी,

कते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Regd. Office: Padamplaza, Hall No. H1-H2, First Floor, Plot No.5, Sec.-16B, Awas Vikas Sikandra Yojna, Agra - 07 (U.P.) Tel.: 0562-2527331/32 Fax: 0562-2527329, E-mail: info@peeceecosma.com

### PUBLIC NOTICE (for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority Members of the company are hereby informed that in terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013, and under Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended by Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit,

The Concerned Shareholders i.e. the shareholders whose shares are liable to be transferred to DEMAT Account of the Authority, who have not encashed their dividend in the last seven consecutive years or more have been already informed about this by 2 individual Notices sent at their last known address.

number or DP ID-Client ID on its websites at www.peeceecosma.com The concerned shareholders who are holding shares in demat form, may please

The concerned shareholders who are holding shares in physical form, the

Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of Authority. Upon such issue, the Original share certificates which were registered in your name(s) will stand automatically cancelled and deemed non negotiable. The shareholders may please note that the above full details of list of such shareholders uploaded by the company on its website should be regarded and

deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificate for the purpose of transfer of shares to DEMAT Account of the IEPF Authority pursuant to

letter under their signature together with a copy of self attested PAN card anda copy of a cancelled cheque of your bank account into which the dividend amoun should be credited, to the company's Registrar and Share Transfer Agent on or before 30th September, 2023, failing which the company will be compelled to transfer the relevant shares to IEPF Demat account

your bank passbook statement, duly self attested.

2021/655, dated 03.11.2021 and SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD RTAMB/P/CIR/ 2021/687 dated 14.12.2021, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, KYC details and Nomination Kindly attach Form ISR1, ISR2 and SH 13 (duly filled) for the same. The same can be downloaded from the companies website at www.peeceecosma.com.SEBI has laid down a vital circular that shareholders who are holding shares in physical form are required to complete their KYC and submit the necessary documents before September 30, 2023. Otherwise, shares in physical form without the KYC are

viii) Please note that no claim shall lie against the company in respect of the unclaimed dividend amount(s) and the shares so transferred.

ix) Shareholders may note that both the unclaimed dividends and the shares transferred to DEMAT Account including all benefits accruing on such shares. any, can be claimed back by them by making an application in Form IEPF-5 to the Authority, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company or the Company's Registrar and Transfer Agent at the following address

Pee Cee CosmaSope Ltd

Plot No. 5, SikandaraAwasVikasYojna, Agra 282007 E-mail: info@peeceecosma.com

Mr. Virender Rana, Director

Unit: Panacea Biotec Limited

D-163-A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110 020

Tel:+91-11-64732661-88.26812682-83 Email: info@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com

PLACE : AGRA (Executive Chairman) DIN: 00112947 DATED: 16.08.2023



निविदा संख्या CON/EP/Area-I/MLGH/R-I/2023/79876 कोटा मंडल / डब्ल्यूसीआर के मंडलगढ़ (एमएलजीएव) स्टेशन पर जीसीटी नीति के तहत मल कार्व का नाम मॉडल कार्गों टर्मिनल के विकास के लिए जंगल सफाई, समतलीकरण में मिट्टी का काम और प्रीकार ब्रीस्ट्रेस्ड आरसीली सीमा दीवार का निर्माण रू. 994.48 लाख ठार्व पूर्ण करने की अवधि 06 HTG धरोहर जना चारी (ई.एम.डी.) रु. ६,४७,२४०/- (ई-भुगतान के मध्यम से) निविदा दस्तावेज का मृत्य नेविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेव) रु. 4000 / - प्लस जीएसटी (जैसा लागू हो) (ई-भुगतान के माध्यम से)

18.08.2023 (11:00 बजे) से 07.09.2023 (17:00 बजे तक)

विदा खोलने की तिथि एवं समय 11.09.2023 प्रति: 11:30 बजी ीय पात्रता मानदंह, कार्य की समान प्रकृति के संबंध में अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.concorindia.com पर तपर स्तृत निविदा सुचना देखें, लेकिन संपूर्ण निविदा दस्तावेज र्जवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से ठाउनलोठ किया मकता है। इसके अलावा, इस निविदा का शुद्धिपत्र/पत्तिकेष्ट, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट **www.concorindia.com**, www.tenderwizard.com/CCIL और सेंट्रल प्रोक्योरफेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकारित किया जाएगा। इसके लिए समाधार पत्र प्रेर समूह महाप्रबंधक (पी एंड एस)/सिविल, फोन नंबर 011-41222500

08.09.2023 17:00 बजे तक

भविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)

विदा जमा करने की तिथि एवं समय

### हुदुस्तान पेपर कापरिशन लिमिटंड— परिसमापन के अंतर्गत की परिसंपत्तियों के लिए विक्रय सूचना (माननीय एनसीएलटी आदेश दिनांकित 02—मई—2019 द्वारा परिसमापन के अंतर्गत एक कंपनी) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय : साउथ टॉवर, चतुर्थ तल, स्कॉप मीनार कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मीनगर, जनपद केंद्र, नई दिल्ली-110092

2016 (विवरणों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया प्रलेख का संदर्भ लें), के तहत निम्नलिखित परिसंपित्तयों का, जैसी हैं जहां है आधार, जैसी हैं जो हैं आधार, वहां जो कुछ भी हैं आधार और बिना संसाधन आधार'' पर विक्रय करने हेतू, ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योर्मेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) वं माध्यम से दिनांक 21—09—2023 को दोपहर 12.00 बजे से अपराहन 04.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) आयोजित की जानेवाली ई—नीलामी हेतु सार्वजनिक उदघोषणा। परिसंपत्तियों का विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई–नीलामी मंच https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से

स्थान / परिसंपत्तियां	पता / क्षेत्र	लॉट	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)		धराज (आईएनआर)
नागालैंड पत्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड के रु. 100 प्रत्येक के 1,13,62,231 समता अंश	नागालैंड पत्प एंड पेपर कंपनी तिमिटेड (सीआईएन : यू21012एनएल1971एसजीसी001349) जिसका पंजीकृत कार्यालय पेपर नगर, पी.ओ.—तुली, जनपद—मोकोकचुंग नागालैंड 798623 में स्थित है		2,56,50,000/-	4,00,000/-	25,65,000/-

मिश्चि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01—09—2023 को मध्या. 11.59 बजे तक है यदि दिनांक 01—09—2023 को मध्या. 11.59 बजे तक कोई भी ईओआई प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी निरस्त हो जाएगी। धराज के भुगतान की अंतिम तिथि 18–09–2023 को सायं 5 बजे तक है। ई–नीलामी जानकारी प्रलेख तथा ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्ते, वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर भी उपलब्ध हैं। समस्त पत्र-व्यवहार अथवा संचार, kuverma@gmail.com/liquidation.hpcl@gmail.com को संबोधित / संप्रेषित किया जाना होगा। कुलदीप वर्मा

हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसमापक आईबीबीआई पंजी. सं.— IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 पंजीकृत कार्यालय : 46 बी.बी. गांगुली मार्ग, 5वां तल, यूनिट नं.—501, कोलकाता—700012 एएफए इस तिथि तक वैध : 11-12-2023

दूरभाष : 91 98360 77900

CSL Finance

स्थान : नोएडा

दिनांकः 18 अगस्त, 2023

पंजीकृत ईमेल आईडी : kuverma@gmail.com स्थान : कोलकाता दिनांक : 18-08-2023

> हिंदुस्तान कॉमरियिल कं. लिमिटेड CTN: U74110UP1984PLC099025; **पंजीकृत कार्यालय :** बी-38, जीएचसीएल हाऊस, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-1, नोएडा गीतम बुद्ध नगर, यूपी 201301

ई मेंल आईडी : hindustancommercial@yahoo.com, फोन न : +91-0120-4939945 एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि

वेब साइट : hindustancommercial@yahoo.com,

एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बी-38, जीएचसीएल हाऊस, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-1, नोएडा गीतम बुद्ध नगर, यूपी 201301 पर शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023, को 10.00 बजे प्रात : आयोजित की एजीएम की सचना उन शेयधारकों के पास अनमत्य माध्यम से भेजी जा चकी है जिनके ई-मेल पते

कम्पनी के पासे उपलब्ध हैं। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hindustancommercial.co.in पर यशसंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम्, 2013 की धारा 108 के अनुसार कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इप्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा

प्रावधानित ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा

उपलब्ध करा रही है। इस सम्बन्ध में सदस्यों को पून : सुचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार 12 सितम्बर 2023 को प्रात : 09:00 बजे पर्वा प्रारम्भ होगी और बुहस्पतिवार 14 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इस समयावधि के उपरान्त रिमोट -वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, ०८ सितम्बर, २०२३ है। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ़ तिथि तक सदस्यों / लामार्थी वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान वोटिंग सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करें लिया है वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु एजीएम के दौरान पुन: मतदान के पात्र नहीं होंगे। बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि सदस्य ई—वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए वह अपने वर्तमान लॉगिन-आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

भौतिक प्रारुप में शेयर धारण करने वाले सभी सदस्य लॉगिन हेत् अपने फोलियो नम्बर का उपयोग

इं-बोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ / शिकायत के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आरवड क्वेश्वन्स (एफएक्यू) / ई—वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते है या सीडीएसएल से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क केरे या कॉल करें : 18002005533 (दोल फ्री न

बुक क्लोजर : कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों की धारा 91 के अनुसार ज़ीएम के उददेश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुरितका 09 सितम्बर, 2023 से 15 सितम्बर, 2023 (दोनों तिथियों शामिल) तक बन्द रहेगी। कृते हिंदुस्तान कॉमर्शियल के लिमिटेड

मोहनन भ्राइल तिथि: 16 अगस्त, 2023 निदेशक डीआईएन : 08310232 स्थान : नोएडा

# CSL Finance Limited

CIN: L74899DL1992PLC051462

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A. Arya Samai Road, Karol Bagh, New Delhi -110005

Tel: 0120-4290650, Email: investor@cslfinance.in, Website: www.cslfinance.in

Pursuant to General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021,

02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 12, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 (referred to as "SEBI Circular"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars and SEBI Circular, the upcoming 31" AGM of the Company will be held on Saturday, September 23, 2023 at 12.00 Noon (IST) through VC/OAVM, Hence, Members can join and participate in the AGM through

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members of the Company will remain closed from Sunday, September 17, 2023 to Saturday, September 23, 2023 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM and Dividend.

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 31" AGM along with the Annual Report for FY 2022-2023 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting.

### Registration/updation of e-mail addresses & bank account details: Physical Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd

Holding Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.cslfinance.in under Investor Relation tab as well as RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at investor@cslfinance.in Please contact your DP and register your email address and bank account

Holding details as per the process advised by DP. E-voting Information:

# The Company will provide its shareholders with a facility for remote e-voting through

electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholders participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company's

website www.cslfinance.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as

mentioned above under copy marked to the Company. By order of the Board of Directors of

> CSL Finance Limited Preeti Gupta (Company Secretary & Compliance Officer)

# गुमशुदा/अपहृत की तलाश

लड़की जिसका नाम खुशबू पुत्री शंकर साहू निवासी मकान नंबर 11 गली नंबर 2 गणेश नगर.2 शकरपुर, दिल्ली। जो अपने घर से दिनांक. 25.01.2023 से

लापता/अपहृत है। इस बाबत FIR/DD No. 90/23 दिनांक. 26.01.2023 थाना: शकरपुर, दिल्ली में दर्ज है। इस लड़की का शारीरिक बोयरा इस प्रकार है।

उम्र- १४ वर्ष १० महीने, रंग- साँवला, कद- ५'2", चेहरा: लंबा, शरीर: पतला, पहनावा- काली टी.शर्ट

कोशिश के बाद भी इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो थाना: शकरपुर, दिल्ली निम्नलिखित ई-मेल: cic/cbi.gov.in और वेबसाइट http://cbi.nic.in पर सूचित करे।

गुलाबी जैकेट और काली पतलून पहने है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव

फ्रोन: 011-24368638,24368641 फेक्स नं. 011- 24368639 DP/9098/ED/2023

हस्ता/- थानाध्यक्ष शकरपुर, दिल्ली फोन: 011-22542500

## वाम होल्डिंग्स लिमिटेड

(CIN: U51909UP1996PLC057371) पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. १ए, सेक्टर-16 ए, नोएडा-201301 (उ.प्र.) ई—मेलः corporate.enpro@jepl.com; सम्पर्कः 0120-4361000 26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में एजीएम की **सूचना** में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए **वाम होल्डिंग्स लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') **सुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023** को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) ग्रैंड ओलिव, ए-12, सेक्टर-50, नोएडा-201301 (बू.पी.) में आयोजित की जाएगी।


अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उवित समय में उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं और उन सदस्यों को मौतिक प्रारूप में भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) के पास पंजीकृत नहीं हैं।

सदस्यगण केवल भौतिक उपस्थित के माध्यम से ही एजीएम में शामिल एवं माग ले सकते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत उनकी गणना कोरम के प्रयोजन हेतू की जाएगी। सदस्यों को एजीएम की सूबना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) एवं मतदान (एजीएम में) के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट देने की रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एनएसढीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने वाले सदस्य भी भौतिक उपस्थित के माध्यम से आयोजित एजीएम में शामिल / भाग ले सकते हैं लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट देने के लिए योग्य नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका एजीएम की सूचना में दिये जा रहे हैं जो कि एनएसडीएल https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध है।

जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी / डीपी के पास पंजीकृत है, उनके अनुरोध हैं कि वे एजीएम की सचना में दिये गये अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करें। सदस्यगण जिन्होंने मौतिक / इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर घारण किये हैं और जिनका ई—मेल पता कंपनी / अपने संबंधित ढिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है. उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना के साथ 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नम्बर, कंपनी के धारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और कंपनी के साथ पंजीकत अनुसार सदस्यों के पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, युटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज की स्व–सत्यापित प्रति के साथ विधिवत् इस्ताक्षरित पत्र को स्कैन करके यथाशीघ ई–मेल corporate.enpro@jepl.com तथा rta@alankit.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपने ढिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई—मेल पता अपबेट कराएं। सदस्यों का वोटिंग अधिकार **शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023** ('कट—ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त

इविवटी शेयर पंजी में उनके द्वारा घारित इविवटी शेयरों के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 (प्रात: 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 (सार्य 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपने बोट इलेक्टॉनिक माध्यम से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिमृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड info@alankit.com पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसढीएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के ढाउनलोड अनमाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग जपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या या टोल फ्री नं. 022-4886 7000 या 022-2499 7000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कृते वाम होल्डिंग्स लिमिटेड ताकेश माधुर अध्यक्ष और निदेशक (DIN: 00009338)



# डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC065388

पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक ई, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 कॉरपोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, टॉवर बी, एसएएस टॉवर, मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोन: +91 124 3016500 । फैक्स: +91 124 4234468 वेबसाइटः www.lalpathlabs.com, ई-मेलः cs@lalpathlabs.com 29वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सचना

एतदद्वारा यह सचना दी जाती है कि 29वीं एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों को संपादित करने के लिए कम्पनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रोंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") से मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को प्रात: 10:30 बजे

कम्पनी अधिनियम. 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और अन्य प्रासंगिक परिपत्र और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपन्न दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में 29वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रोंनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास 17 अगस्त, 2023 को भेज दी गयी हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट(टॉ)

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट(टों) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है तो कपया अपना ई—मेल पता पंजीकत / अपडेट कराने के लिए निम्नलिखित निर्देशों

निर्धारित प्रपत्र आईएसआर--1 एवं अन्य प्रासंगिक प्रपत्र(त्रों) में विवरण को कम्पनी के रजिस्टार एवं अन्तरण एजेंट (आरटीए) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ delhi@linkintime.co.in पर भौतिक धारण. पंजीकत / अपडेट करें। यदि है सदस्य कम्पनी की वेबसाइट https://uat-cdn.drlallab.com/2023-08/FAOs.pdf पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") का संदर्भ भी ले सकते हैं।

> अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट (डीपी) से सम्पर्क करें और अपना ई-मेल पता तथा बैंक विवरण अपने डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करें।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि 29वीं एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lalpathlabs.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात

बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है। 29वीं एजीएम की सूचना ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को 29वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान

करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और/अथवा एजीएम के दौरान -वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली गई है। भौतिक पद्धति से शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई—मेल पते को पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और / अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को 29वीं एजीएम की सूचना मे उपलब्ध कराया गया है। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 8 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे से

वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग को बंद कर दिया जायेगा। सदस्यों के मतदान का अधिकार दिनांक मंलगवार, 5 सितंबर 2023 की कट-ऑफ तिथि पर कंपनी की इक्विटी पंजी मे उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात मे होगी।

कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सचना को केवल जानकारी के उददेश्य से लेना चाहिए। कोई व्यक्ति जो 29वीं एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त शेयर ग्रहण करता है और कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारिता रखता है वह मतदान करने के लिए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेत 29वीं एजीएम की सूचना का सन्दर्भ ले सकता है। किन्तु, यदि आप ई-वोटिंग हेतु पहले से ही सीडीएलएल के साथ पंजीकृत हैं तो मतदान हेतु आप अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लिए आप सीडीएसएल की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting manual का सन्दर्भ ले सकते हैं अथवा 1800 225533 पर कॉल करें या सम्पर्क करें : श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबन्धक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्रयूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्डस, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू.), मुम्बई-400013, निर्दिष्ट ई-मेल आईडी

अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रु. 6/– प्रति इक्विटी शेयर के अन्तिम लाभांश की सिफारिश की है जो 29वीं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन होगी। अन्तिम लाभांश, यदि अनुमोदित होता है, तो इसे उन सदस्यों को प्रदान किया जायेगा जिनके नाम शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 (रिकार्ड तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे। बैंक खाते में लाभांश सीधे प्राप्त करने के लिए सदस्य कृपया अपना सम्पूर्ण बैंक विवरण (i) अपने डिपॉजिटरी (जिन सदस्यों के पास शेयर अभौतिक पद्धति में हैं) तथा (ii) आरटीए (जिन सदस्यों के पास शेयर भौतिक पद्धति में हैं) के साथ प्रपत्र आईएसआर–1 में निर्धारित के

कते डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

स्थानः गुरुग्राम तिथि: 17 अगस्त, 2023



लड़की जिसका नाम सिमरन, पुत्री श्री संजीत महतो, **पताः** मकान नं. बी-31, जेजे कॉलोनी, द्वारका, पालम, नई दिल्ली, उम्रः 14 वर्ष, कदः 5', चेहराः गोल, रंगः गेहुंआ, शरीरः पतला, आंखें: सामान्य काली, बालः छोटे काले, पहनावाः लाल

दिनांक 10.08.2023 को अपने घर से गुमशुदा है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 483 / 23, घारा 363 आईपीसी दिनांक 10.08.2023 को पुलिस थाना पालम गांव, नई दिल्ली में दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सुचित करें।

ई-मेल : Email: investors@valiantcom.com, वेब : www.valiantcom.com

आयोजित की जाएगी।

https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम में निष्पादन हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

जिन सदस्यों की ई-मेल आईडीज पहले से कम्पनी / डीपी'ज के पास पंजीकृत हैं, एजीएम की सुचना

2. भौतिक धारण : जिन सदस्यों ने कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हए हैं तथा

यह सूचना उपरिएवर्णित सर्कुलर्स के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की सूचना एवं हितार्थ जारी की

मनीष कुमार कम्पनी सचिव

## PEE CEE COSMA SOPE LTD CIN: L24241UP1986PLC008344

Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 effective from February 28, 2017, herein referred to as "IEPF" Rules" that:

In terms of Rule 6 of IEPF Rules, equity shares of the Company, in respect of which dividend entitlements has not been encashed for last seven consecutive years or more, are required to be credited to DEMAT Account of the Authority to be

The Company has uploaded full details of concerned shareholders and their folio

note that Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of shares in favour of the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them and after issue of duplicate share certificates, the

 vii) Shareholders can claim their unclaimed dividend lying with the company for a period of seven consecutive years from the Financial year 2015-2016 by writing a

In case the cancelled cheque does not bear your name, please attach a copy of

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/

x) You are also requested to kindly get your shares DEMAT as early as possible.

Ms Nidhi Agarwal, Company Secretary Hall H1-H2, First Floor, Padam Plaza,

M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd., (Registrar and Transfer Agent)

For & on behalf of the Board PEE CEE COSMA SOPE LIMITED MAYANK JAIN

Place: Noida

Date: 17-08-2023

शुरू होगी और सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

helpdesk.evoting@cdslindia.com सदस्य कृपया ध्यान दें कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने गुरुवार, 11 मई, 2023 को आयोजित

अनुसार प्रासंगिक विवरण / दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए delhi@linkintime.co.in पर अपडेट करा लें।

> विनय गुजराल कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

